



हमीरपुर पुलिस



दिनांक-25.07.2021

थाना-कुरारा

हत्या की घटना के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.07.2021 को प्रार्थी मुखिया पुत्र श्री शिवनाथ धोबी ग्रा0 बिलोटा थाना कुरारा द्वारा थाने पर तहरीर देकर बताया गया कि उसके पड़ोस में रहने वाला उसके चाचा का लड़का उमेश पुत्र शिवचरन धोबी अपनी पत्नी नेहा से आपस में लड़ाई झगडा कर रहा था, शोर शराबा सुनकर उसका भाई रामप्रसाद पुत्र शिवनाथ धोबी उम्र 40 वर्ष उमेश के घर जाकर उमेश को डांट फटकार कर झंगडा शांत करा रहा था। इसी बात से नाराज होकर उमेश व उसके भाई प्रदीप ने रामप्रसाद को गालियां देते हुए दौड़ा लिया जिसपर रामप्रसाद ने अपने बचाव में अपने पास लिये तमन्चा से हवाई फायर कर दिया। फिर उमेश व उसके भाई प्रदीप ने रामप्रसाद को पकड कर तमन्चा छीन लिया और जमीन पर गिराकर बुरी तरह मारने पीटने लगे व उमेश ने उसी के तमन्चे की बट से तथा प्रदीप ने ईट से उसके सिर व चेहरे पर वार कर हत्या कर दी और मौके से भाग गये। सूचना पर थाना कुरारा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-161/21, धारा-302 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कुरारा पुलिस द्वारा घटना सम्बंधित दोनों नामजद अभियुक्तों 1)उमेश कुमार 2)प्रदीप कुमार पुत्रगण शिवचरन निवासी गण ग्राम बिलौटा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आला कत्ल खूनआलूदा ईट व अवैध तमन्चा 315 बोर खूनआलूदा, 03 अदद जिन्दा कारतूस मय एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1)उमेश पुत्र शिवचरन उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम बिलौटा थाना कुरारा हमीरपुर
- 2)प्रदीप पुत्र शिवचरन धोबी उम्र 32 नि0 ग्राम बिलौटा थाना कुरारा हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1)एक अदद आलाकत्ल तमंचा 315 बोर खून आलूदा व 03 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कार0
- 2)एक अदद ईट आलाकत्ल खून आलूदा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1) प्र0नि0 कुरारा बाँकेबिहारी सिंह
- 2) उ0नि0 भारत यादव
- 3) उ0नि0 शिवदान सिंह
- 4) का0 अमित कुमार
- 5) का0 विपिन कुमार

